

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 1995/चैत्र 8, 1917

No. 134]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 1995/CHAITRA 8, 1917

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1995

सा. का नि 298(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की विप्री) नियमावली, 1981 के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विभिन्न उपयोगों हेतु वसुधनीय पूर्व निर्धारित दरें इस प्रकार अधिसूचित करती है :—

भूमि की श्रेणी

1994-95 के लिए प्रति वर्ग मीटर पूर्व  
निर्धारित अनुमोदित दर रोहिंगी फैंज-III

1

2

## 1. रोहिंगी भूखण्ड :

ई. डब्ल्यू. एस. 26 वर्ग मीटर

रुपये 1484.35

एल. आई. जी. 32 वर्ग मीटर

रुपये 1806.43

एल. आई. जी. 48 वर्ग मीटर

रुपये 2128.50

एम. आई. जी. 60 वर्ग मीटर

रुपये 2772.65

एम. आई. जी. 90 वर्ग मीटर

रुपये 3094.73

(ग्रान्तरिक विकास और उपयोग व कब्जा प्रभारों की लागत शामिल है।)

## 2. आवास स्कीमें :

एल. आई. जी.

रुपये 966.22

एम. आई. जी.

रुपये 1610.37

(ग्रान्तरिक विकास की लागत को फलैटों की बिक्री लागत निकालते समय जोड़ा जाना है।)

## 3. वैकल्पिक भूखण्ड

रुपये 1806.43

(ग्रान्तरिक विकास प्रभारों की लागत शामिल है।)

## 4. झुग्गी झोपड़ी तथा अनाधिवासी पुनर्वास

रुपये 641.15

(ग्रान्तरिक विकास को छोड़कर, जिसे दिल्ली नगर निगम की स्लम विंग द्वारा किये जाने वाले अन्तरिम विकास के साथ किया जाना है।)

ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

[संख्या: जे-13036/4/95-डी.डी. 1ए]

ए. पी. मिन्हा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF URBAN AFFAIRS &amp; EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1995

G.S.R. 298(E).—In exercise of powers conferred by Rule 2(1) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the

Central Government hereby notifies the pre-determined rates chargeable for different uses as under :—

Category of Land	Approved pre-determined rates for Rohini Ph. III 1994-95 per sq. mtr.
1	2
1. Rohini Plot	
EWS 26 sq. mtr.	Rs. 1484.35
LIG 32 sq. mtr.	Rs. 1806.43
LIG 48 sq. mtr.	Rs. 2128.50
MIG 60 sq. mtr.	Rs. 2772.65
MIG 90 sq. mtr.	Rs. 3094.73
	(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
2. Housing Schemes	
LIG	Rs. 966.22
MIG	Rs. 1610.37
	(Cost of internal development to be added while working out disposal cost of flats)
3. Alternative Plots	Rs. 1806.43
	(including cost of internal development)
4. J.J. & Squatters	Rs. 644.15
Resettlements	(excluding internal development which along with interim arrangement has to be done by Slum Wing of MCD).

These rates come into force with immediate effect.

[No. : J-13036/4/95-DDIA]

A.P. SINHA, Jt. Secy.

